



DCM SHRIRAM

BSE Limited Phiroze JeeJeeBhoy Towers, Dalal Street, <u>Mumbai - 400 001</u>	National Stock Exchange of India Ltd., “Exchange Plaza”, 5 th Floor, Plot No. C-1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) <u>Mumbai – 400 051</u>
SCRIP CODE : 523367	SCRIP CODE : DCMSHRIRAM

Kind Attn : Department of Corporate Communications/Head – Listing Department

Sub : : Newspaper Advertisement for the Financial Results for the Quarter Ended on June 30,2022

Dear Sirs,

We enclose copies of the newspaper advertisements published in the Business Standard (English & Hindi) on July 20, 2022 with respect to the unaudited financial results for quarter ended on June 30, 2022.

Please arrange to take the above information on your records.

Thanking You,

**Yours Faithfully
For DCM Shriram Ltd.**

**(Sameet Gambhir)
Company Secretary**

Dated : 20.07.2022

Encl: As above

DCM SHRIRAM LTD.

Registered and Corporate Office: 2nd Floor (West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi - 110037, India
Tel: +91 11 42100200 e-mail: response@dcmshriram.com website: www.dcmshriram.com
CIN No. L74899DL1989PLC034923



DCM SHRIRAM
Growing with trust
DCM SHRIRAM LTD.

Regd. Office : 2nd Floor, (West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi - 110 037
CIN: L74899DL1989PLC034923 E-mail: response@dcmshriram.com
Website: www.dcmshriram.com
Tel: 91 11 42100200 Fax: 91 11 43561694

Extract of Unaudited Consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2022

PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended
	30.06.2022	30.06.2021	31.03.2022
Total Income	2,999.90	2,025.11	9,941.31
Net Profit before tax	386.65	215.70	1,564.98
Net Profit after tax [after share of profit/(loss) of joint venture]	253.96	157.87	1,067.35
Total Comprehensive Income	243.55	158.08	1,057.15
[Comprising net profit and Other Comprehensive Income (after tax)]			
Equity Share capital	31.35	31.35	31.35
Earning per share - Basic/Diluted (Rs. per equity share)	16.29	10.12	68.45

Notes:
1. The extract of standalone results is as under:

PARTICULARS (Standalone)	Quarter Ended		Year Ended
	30.06.2022	30.06.2021	31.03.2022
Total income	2,936.30	1,973.86	9,770.44
Profit before tax	383.51	202.95	1,539.56
Profit after tax	252.31	148.42	1,048.75
Total Comprehensive Income	245.07	147.35	1,040.34
[Comprising net profit and Other Comprehensive Income (after tax)]			

2. Other Equity (excluding revaluation reserve) as at March 31, 2022 was Rs. 5,470.45 crores
3. The above is an extract of the detailed financial results for the quarter ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listings and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full standalone and consolidated financial results in prescribed format are available on the Stock Exchanges websites (www.nseindia.com) / (www.bseindia.com) and Company's website www.dcmshriram.com
4. The above results were reviewed by Audit Committee and then approved by the Board of Directors in their meeting held on July 19, 2022. The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the aforesaid results.

For and on behalf of the Board
AJAY S. SHRIRAM
Chairman & Senior Managing Director
DIN: 00027137

Place: New Delhi
Date: July 19, 2022



HDFC Life Insurance Company Limited
CIN : L65110MH2000PLC128245

Registered Office: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai 400 011 (IRDAI Reg. No. 101 dated 12.10.2000)
Ph: 022-67516666, Fax: 022-67516861, Email: investor.service@hdfclife.com, Website: www.hdfclife.com

Sr. No.	Particulars	Three months ended / As at				Year ended / As at
		June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022	March 31, 2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Premium Income (Gross) ¹	1,004,965	1,574,838	765,594	4,728,995	
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	33,036	47,284	27,415	130,275	
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	33,036	47,284	27,415	130,275	
4.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	32,879	50,619	26,955	132,693	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] ²	NA	NA	NA	NA	
6.	Equity Share Capital (Paid up)	211,317	211,262	202,214	211,262	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,341,160	1,341,260	672,614	1,341,260	
8.	Earnings per share (Face value of ₹10 each)					
	1. Basic (not annualised for three months) (in ₹)	1.56	2.48	1.33	6.49	
	2. Diluted (not annualised for three months) (in ₹)	1.56	2.47	1.33	6.48	

Sr. No.	Particulars	Three months ended / As at				Year ended / As at
		June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022	March 31, 2022
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Premium Income (Gross) ¹	939,610	1,442,126	765,594	4,596,283	
2.	Profit before tax	36,631	32,156	30,673	118,014	
3.	Profit after tax	36,529	35,752	30,235	120,769	
4.	Total Comprehensive Income ²	NA	NA	NA	NA	

Sr. No.	Particulars	Three months ended / As at				Year ended / As at
		June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022	March 31, 2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Net Worth ³ (₹ in Lakhs)	1,540,054	1,548,591	895,413	1,548,591	
2.	Paid up Debt capital/ Outstanding Debt (₹ in Lakhs)	95,000	60,000	60,000	60,000	
3.	Outstanding redeemable preference shares	NA	NA	NA	NA	
4.	Debt Equity Ratio (no of times)	0.06	0.04	0.07	0.04	
5.	Capital redemption reserve / Debenture redemption reserve	NA	NA	NA	NA	
6.	Debt service coverage ratio (no of times)	10.55	12.98	8.75	47.46	
7.	Interest service coverage ratio (no of times)	10.55	12.98	8.75	47.46	

1. Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax.
2. The new Indian Accounting Standards (Ind AS) are currently not applicable to insurance companies in India.
3. Net worth represents shareholder's funds excluding redeemable preference shares, if any.

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & Reg 52(4) of the SEBI (Listing Obligation and other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.hdfclife.com).

For and on behalf of the Board of Directors

Mumbai July 19, 2022
Vibha Padalkar
Managing Director & CEO
(DIN: 01682810)

THE KARUR VYSYA BANK LIMITED
Registered & Central Office, No. 20, Erode Road
Vadivel Nagar, L.N.S., Karur - 639002
[CIN No: L65110TN1916PLC001295]
[e-Mail: kvb_sib@kvbmail.com][Website: www.kvb.co.in]
[Tel No: 04324-269441][Fax No: 04324-225700]

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and Regulation 50 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended from time to time), notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of The Karur Vysya Bank Ltd., will be held on **Monday, 25th July, 2022**, inter alia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results of the Bank for the Quarter ended 30th June, 2022.

Further, in continuation to our previous communication dated 27th June, 2022 regarding intimation of closure of trading window, we wish to inform you that the Trading Window shall remain closed till **27th July, 2022**. The Trading Window shall open for trading on **28th July, 2022**.

For further information/updates on this, the investors may visit the Bank's website www.kvb.co.in and Stock Exchange's website www.nseindia.com.

For The Karur Vysya Bank Limited
Srinivasarao M
Company Secretary

Place : Karur
Date : 18.07.2022



PONNI SUGARS (ERODE) LIMITED

CIN: L15422 TN 1996 PLC 037200
Regd. Office: "Eswin House," 13, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Perungudi, Chennai-600 096
Phone: 044-24961920, 24960156 Email: admin@ponnisugars.com
Investor Grievance ID: investor@ponnisugars.com. Web: www.ponnisugars.com



Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2022 (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)
Total Income from Operations	8809	7077	6529	29532
Net Profit for the period [before tax and exceptional items]	248	1446	518	3597
Net Profit for the period before tax [after exceptional items]	248	1446	518	3597
Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	216	1127	457	2925
Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1092	3036	4082	4637
Equity Share Capital	860	860	860	860
Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	35988
Earnings Per Share (Face Value ₹10/- each)				
Basic:	2.51	13.10	5.31	34.01
Diluted:	2.51	13.10	5.31	34.01

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Company at www.ponnisugars.com and Stock Exchanges - BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com)

Chennai
19-07-2022

For Ponni Sugars (Erode) Limited
N.Ramanathan
Managing Director

Branch: Pali Main Branch, Near Town Hall, Suraj Pole, Pali-306401
Ph.: 02932-222176, Email: pali@bankofbaroda.com

POSSESSION NOTICE (For Immovable property)

(As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)
Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda, Main Branch Pali, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 11.05.2022 calling upon the Borrower Mr. Kan Raj Jindani S/o Paras Mal Jindani, (Co-Borrower) Mrs. Shaibala Jindani W/o Kan Raj Jindani, (Co-Borrower) Miss. Monal Jindani D/o Kan Raj Jindani to repay the amount mentioned in the notice being Baroda Home Loan of Rs. 23,42,054.46 and Baroda Top Up Loan of Rs. 1,48,66,041.49 Total Amount Rs. 1,72,08,095.95 (One Crore Seventy Two Lac Eight Thousand Ninety Five & Ninety Five Paise Only) as on Dated 08.05.2022 (Inclusive of Interest up to 07.05.2022) and future interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses within 60 days from the date of receipt of the said notice.
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rule on this 18th day of July of the year 2022.
The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with Baroda Home Loan of Rs. 23,42,054.46 and Baroda Top Up Loan of Rs. 1,48,66,041.49 Total Amount Rs. 1,72,08,095.95 (One Crore Seventy Two Lac Eight Thousand Ninety Five & Ninety Five Paise Only) as on Dated 08.05.2022 (Inclusive of Interest up to 07.05.2022) and future interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment. The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of Residential House Situated at Plot No. 12-A, House No. 23, Veer Durga Das Nagar, Pali Distt. Pali (Raj.) Admeasuring 1984 Sq. Ft. in the name of Mr. Kan Raj Jindani S/o Sh. Paras Mal Jindani & Mrs. Shaibala Jindani W/o Sh. Kan Raj Jindani within the Registration Sub-District Pali and District Pali. Bounded by:- East: Plot No. 11-A, West: Plot No. 13-A, North: House of Fatehraj S/o Ganesh Mal Hingar, South: Road 30 Ft.
Date: 18.07.2022 Place: Pali
J.P. Meena, Authorised officer, Bank of Baroda

APPENDIX IV
[See rule 8 (1)]

POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas,

The undersigned being the Authorized Officer of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 29.11.2021 calling upon the Borrower(s) **AARTI GUPTA AND AMIT MOHAN GUPTA** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs.17,76,382.47 (Rupees Seventeen Lakhs Seventy Six Thousand Three Hundred Eighty Two and Paise Forty Seven Only)** against Loan Account No. **HHLRHN00294609** as on 11.11.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken **symbolic possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **15.07.2022**.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** for an amount of **Rs.17,76,382.47 (Rupees Seventeen Lakhs Seventy Six Thousand Three Hundred Eighty Two and Paise Forty Seven Only)** as on 11.11.2021 and interest thereon.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

BUILT UP PROPERTY BEARING PLOT NO. A-22, SECOND FLOOR, WITHOUT ROOF RIGHTS, (REAR SIDE/NORTHERN PORTION), (S/G + UGF + 3 STRUCTURE), ADMEASURING AREA 50 SQ. YDS. I.E. 41.81 SQ. MTR. GALI NO 2, BLOCK-A, OUT OF KHASRA NO. 104/1, VILLAGE-PALAM COLONY, RAJA PURI, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059 AND BOUNDED AS UNDER:

EAST : As mentioned in Title Deed WEST : As mentioned in Title Deed
NORTH : As mentioned in Title Deed SOUTH : As mentioned in Title Deed

Date : 15.07.2022 Authorised Officer
Place: DELHI **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED**

APPENDIX IV
[See rule 8 (1)]

POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas,

The undersigned being the Authorized Officer of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 08.12.2021 calling upon the Borrower(s) **SHASHANK JOHRI S/O MR. SHANTI SWAROOP JOHRI AND KALPANA JOHRI W/O SH. SHASHANK JOHRI** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs.12,14,442.00 (Rupees Twelve Lakhs Fourteen Thousand Four Hundred Forty Two Only)** against Loan Account No. **HHLNOD00247044** as on 07.12.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken **symbolic possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **15.07.2022**.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** for an amount of **Rs.12,14,442.00 (Rupees Twelve Lakhs Fourteen Thousand Four Hundred Forty Two Only)** as on 07.12.2021 and interest thereon.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF E-33 B, FIRST FLOOR WITHOUT ROOF RIGHTS OF PROPERTY ADMEASURING 50.17 SQ MTR. BEARING KHASRA NO. 105/10, FRONT SIDE VISHWAS PARK, UTTAM NAGAR, VILLAGE PALAM, DELHI-110059

BOUNDARIES
EAST : GALI WEST : ROAD
NORTH : PLOT NO. E-33A WEST : PLOT NO. E-34A

Date : 15.07.2022 Authorised Officer
Place: DELHI **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED**

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of the Corporate Debtor	Suman Villas Private Limited
2. Date of incorporation of Corporate Debtor	09.03.2006
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies-NCT of Delhi & Haryana
4. Corporate identity number/limited liability identification number of corporate debtor	U45201HR2006PTC036085
5. Address of the registered office & principal office (if any) of corporate debtor	Pamarni Tower, SCO 50-51, 1st Floor, Old Judicial Complex, Civil Lines Gurgaon HR 122001
6. Insolvency commencement date of the corporate debtor	08.04.2022
7. Date of invitation of expression of interest	20.07.2022
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Will be share via mail at cirp.sumanvillas@gmail.com
9. Norms of eligibility applicable under section 29A are available at:	The resolution applicant should not be ineligible for submission of resolution plan in terms of section 29A of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016. For further details, please e-mail to us at cirp.sumanvillas@gmail.com
10. Last date for receipt of expression of interest	04.08.2022
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	14.08.2022
12. Last date for submission of objections to provisional list	19.08.2022
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	29.08.2022
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	19.08.2022
15. Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	For further details, please email to us at cirp.sumanvillas@gmail.com
16. Last date for submission of resolution plans	18.09.2022
17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In a sealed envelope by post/hand along with Digital Copy in a pendrive to Resolution Professional and password protected soft copy by email to Resolution Professional by email to cirp.sumanvillas@gmail.com
18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	18.10.2022
19. Name and registration number of the resolution professional	Sanjay Garg Reg. No.: IBB/IIPA-001/IP-P-01865/2019-2020/12919
20. Name, Address & e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Sanjay Garg 193, Agroha Kunj, Sector 13, Rohini, Delhi - 110085. Email: rp.sanjaygarg@gmail.com
21. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Sanjay Garg Osrk Resolution Private Limited, 908, 9th Floor, D Mall, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-34. Email: cirp.sumanvillas@gmail.com
22. Further Details are available at or with	For further details, please e-mail to us at cirp.sumanvillas@gmail.com
23. Date of publication of Form G	20.07.2022

Sanjay Garg
Resolution Professional
IP Reg. No.: IBB/IIPA-001/IP-P-01865/2019-2020/12919
(Authorization for Assignment valid till 28/01/2023)
Regd. Add: 193, Agroha Kunj, Sector 13, Rohini, New Delhi -110085
Date : 20.07.2022 Communication Add: Osrk Resolution Private Limited, 908, 9th Floor, Place: Delhi D Mall, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034